

No. 55181*

**Peru
and
India**

Cultural Agreement between the Government of the Republic of Peru and the Government of the Republic of India. New Delhi, 25 January 1987

Entry into force: *4 April 1988 by the exchange of the instruments of ratification, in accordance with article 12*

Authentic texts: *English, Hindi and Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Peru, 31 May 2018*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Pérou
et
Inde**

Accord culturel entre le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de la République de l'Inde. New Delhi, 25 janvier 1987

Entrée en vigueur : *4 avril 1988 par l'échange des instruments de ratification, conformément à l'article 12*

Textes authentiques : *anglais, hindi et espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Pérou, 31 mai 2018*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[ENGLISH TEXT - TEXTE ANGLAIS]

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF PERU AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the Republic of Peru and the
Government of the Republic of India,
INSPIRED BY a common desire to establish and develop
closer cultural relations, and
DESIROUS OF promoting and developing in every possible
manner the relations and understanding between Peru
and India in the realms of art, culture, education,
including academic activity in the fields of sports,
public health and mass media of information and educa
tion.

HAVE AGREED to conclude the following agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and en-
courage cooperation in the fields of art and culture,
education, including academic activity in the fields
of public health, mass media of information, and edu-
cation, sports and games and journalism in order to
contribute towards a better knowledge of their respec
tive cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and faci-
litate:

- 1) reciprocal cultural exchange (experts and wri-
ters) for visits and study projects,
- 2) cultural exchange of artistic troupes,
- 3) exchange of cultural and artistic exhibitions.

4) reciprocal exchange of teachers, intellectuals and specialists to undertake research projects, and to deliver lectures at different education levels.

5) reciprocal grant of scholarships, and encourage exchange of students at graduate and post-graduate levels having no scholarships, according to different needs and possibilities to be worked out mutually.

6) promote and facilitate the establishment of contacts and collaboration between the Ministries or Institutions that represent higher education in both countries.

7) encourage the exchange of manuals, books and other material between educational institutions of both countries.

8) invite intellectuals and specialists from other Contracting country to international academic conferences organised by each country and provide all necessary facilities to them.

9) reciprocal recognition of degrees, certificates and/or diplomas, granted by higher educational centres as well as diplomas granted by educational institutions of the two countries, in accordance with legal norms of the countries.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure, that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall encourage reciprocal translation and publication of Literary, Artistic, and Scientific works of the other country through appropriate institutions and the exchange of books, magazines, newspapers, musical scores, art reproductions, records, magnetophonic tapes, films and other material of cultural artistic, educational, scientific and technological character.

ARTICLE 5

The Contracting Parties, shall endeavour to strengthen the ties and collaboration between their sports institutions, according to different needs and possibilities through the exchange of sportsmen/women and coaches and by organising friendly competitions in order to develop sporting contacts.

ARTICLE 6

Subject to previous agreement, the Contracting Parties, will carry out exchange and collaboration in the fields of press, radio broadcasting, television and cinematography, they will also encourage artistic and commercial exchange between film companies, of both countries.

ARTICLE 7

Subject to previous Agreement the Contracting Parties agree to exchange delegations and specialists in the field of social sciences, in order to undertake vi

sits, attend conferences, and exchange material on relevant subjects.

ARTICLE 8

The Contracting Parties will provide the necessary facilities for the exchange of replicas, photographs, and written material on cultural heritage, history and art, belonging to museums, libraries and other cultural institutions of both countries.

ARTICLE 9

The Contracting Parties, in accordance with their laws and regulations will facilitate the temporary entrance and exit of cultural and artistic objects belonging to cultural and artistic exhibitions from the other contracting country.

Each the Contracting Parties will guarantee the protection of these objects during their presence in its territory, as well as the returning of the objects to the other Contracting Party subject to specific arrangements to be mutually agreed on in each case.

ARTICLE 10

Each of the Contracting Parties will undertake to cooperate in the return of cultural objects belonging to the other party in case they have been illegally taken out of the original country and are present in their territory.

ARTICLE 11

Whenever it is considered necessary, each of the Contracting Parties, may propose to the other, through diplomatic channels the sending or receiving of one or several representatives or a delegation to discuss exchange programmes in one or more of the fields covered by this agreement and to sign the cultural exchange programme. The Contracting Parties, agree that the executive plan and the expenses of cultural and educational exchange, will be determined separately through diplomatic channels.

ARTICLE 12

The present agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each until either Contracting Party gives to the other a six months prior notice of its intention to terminate the present agreement. This Agreement may be modified by mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly

authorised representatives of the Contracting Parties
have affixed their seals thereto.


Done at New Delhi, on this 25th day of January in
the year 1987 corresponding to the 5th day of Magha,
1908 (Saka) in two originals, each in the Hindi, Spanish
and English Languages, all the texts being equally au-
thentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF PERU

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



ALLAN WAGNER TIZON
MINISTER OF EXTERNAL RELATIONS



NARAYAN DATT TIWARI
MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS

[HINDI TEXT – TEXTE HINDI]

पेरु गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की
सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

पेरु गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार घनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने तथा विकसित करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, तथा खेल, जन-स्वास्थ्य और सूचना के जन-संचार और शिक्षा, के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में भारत और पेरु के बीच हर सम्भव तरीके से संबंधों और सहयोग को प्रोन्नत करने तथा विकसित करने की इच्छा से, निम्नलिखित करार करने के लिए सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद-1

संविदाकारी पक्षकार, जन-स्वास्थ्य, सूचना के जन-संचार और शिक्षा, खेलकूद और पत्रकारिता के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित कला और संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनायेंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृति तथा कार्यक्रमों की बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें ।

अनुच्छेद-2

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित जो प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनायेंगे :-

1. दोरों तथा अध्ययन परियोजनाओं के लिए पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान ॥ विशेषज्ञ तथा लेखक ॥ ।
2. कलात्मक मण्डलियों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान ;
3. सांस्कृतिक तथा कलात्मक प्रदर्शनियों का आदान- प्रदान
4. अनुसंधान परियोजनाओं को आरम्भ करने तथा विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर व्याख्यान देने के लिए शिक्षकों, बुद्धिजीवियों तथा विशेषज्ञों का पारस्परिक आदान-प्रदान ।

- 5। पारस्परिक रूप से छात्रवृत्तियां प्रदान करना तथा विभिन्न आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुसार, जो आपस में तय की जासंगी, स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर उन छात्रों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना जो छात्रवृत्त प्राप्त नहीं कर रहे हैं ।
- 6। दोनों देशों में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले मंत्रालयों अथवा संस्थाओं के बीच सम्पर्क तथा सहयोग स्थापित करने को प्रोन्नत करना तथा सुकर बनाना ।
- 7। दोनों देशों की शैक्षिक संस्थाओं के बीच नियम-पुस्तिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना ।
- 8। प्रत्येक देश द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलनों के लिए अन्य संविदाकारी देश के बुद्धिजीवियों तथा विशेषज्ञों को आमंत्रित करना तथा उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना ।
- 9। दोनों देशों की शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिप्लोमाओं और उच्चतर शैक्षिक केन्द्रों द्वारा प्रदान की गई डिग्रीयों, प्रमाण-पत्रों और/अथवा डिप्लोमाओं को देशों के कानूनी मानदंडों के अनुसार पारस्परिक मान्यता प्रदान करना ।

अनुच्छेद- 3

संविदाकारी षक्षकार, यथा संभव यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों विशेष रूप से इतिहास और भूगोल से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के संबंध में कोई गलती अथवा तथ्यों का मिथ्या वर्णन न हो ।

अनुच्छेद- 4

संविदाकारी षक्षकार अन्य देश की सांहीत्यक, कलात्मक और वैज्ञानिक कृतियों का उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से पारस्परिक अनुवाद और प्रकाशन तथा पुस्तकों, पात्रकाओं, समाचार-पत्रों, संगीत स्कोर्स, कला-प्रतिकृतियों, रिकार्डों, मैग्नेटोफोनिक टेपों, फिल्मों और सांस्कृतिक

कलात्मक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय स्वल्प की अन्य सामग्री के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- 5

संविदाकारी पक्षकार खेल सम्बन्धों को विकसित करने के लिए खिलाड़ियों/महिलाओं और प्रशिक्षकों के विनियम के माध्यम से तथा मैत्री प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपनी खेल संस्थाओं के बीच सम्बन्धों और सहयोग को विवर्धन आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुसार सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे ।

अनुच्छेद-6

पिछले करार के अनुसार संविदाकारी पक्षकार प्रेस, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन और सिनेमाटोग्राफी के क्षेत्रों में विनियम और सहयोग करेंगे । वे दोनों देशों की फिल्म कंपनियों के बीच कलात्मक और वाणिज्यिक विनियम को भी प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- 7

पिछले करार के अनुसार, संविदाकारी पक्षकार सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में दौरे करने, सम्मेलनों में भाग लेने तथा प्रासंगिक विषयों की सामग्री के विनियम के लिए शिष्टमण्डलों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत है ।

अनुच्छेद- 8

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित सांस्कृतिक विरासत, इतिहास तथा कला पर लिखित सामग्री और प्रतिकृतियों, चित्रों के विनियम के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद- 9

संविदाकारी पक्षकार, अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार, दूसरे संविदाकारी देश की सांस्कृतिक और कलात्मक प्रदर्शनियों से संबंधित

सांस्कृतिक और जलात्मक वस्तुओं के अस्थायी प्रवेश और विकास को सुकर बनासंगे ।

प्रत्येक संवदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र में इन वस्तुओं की विद्यमानता के दौरान और दूसरे संवदाकारी पक्षकार को इनको लौटाते समय भी इनकी सुरक्षा को गारन्टी प्रत्येक मामले में विवाशाष्ट प्रबन्धों के लिए पारस्परिक रूप से हुई सहमति के अनुसार देंगे ।

अनुच्छेद- 10

प्रत्येक संवदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार की सांस्कृतिक वस्तुओं को लौटाने में सहयोग करने के लिए वचनबद्ध होगा यदि उन्हें मूल देश से बाहर गैर-कानूनी तौर पर लाया गया हो और वे उसके क्षेत्र में विद्यमान हों ।

अनुच्छेद- 11

आवश्यक समझे जाने पर, प्रत्येक संवदाकारी पक्षकार इस करार में शामिल किए गए एक या अधिक क्षेत्रों में विनिमय कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य पक्षकार को राजनीतिक माध्यमों से एक या कई प्रतीनिधियों अथवा विवाशाष्टमण्डल भेजने तथा स्वागत करने का प्रस्ताव कर सकता है । संवदाकारी पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि कार्यकारी योजना तथा सांस्कृतिक स्वं शैक्षिक आदान-प्रदान का व्यव्य अलग से राजनीतिक माध्यमों से विनिर्धारित किया जायेगा ।

अनुच्छेद- 12

वर्तमान करार अनुसमर्थन के दस्तावेजों के विनिमय की तारीख से लागू होगा । यह पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और उसके बाद पांच-पांच वर्ष की और अवधि के लिए स्वतः ही नवीकृत हो जायेगा । जब तक कि कोई भी संवदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार को वर्तमान करार को समाप्त करने के अपने आशय की सूचना छः माह पूर्व नहीं दे देता । इस करार में पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकता है ।

इसके ताक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने संवदाकारी पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में इस करार पर अपनी-अपनी मोहरें लगाई हैं ।

नई दिल्ली में, 1987 ईसवी सन् के जनवरी माह के 25वें दिन तदनुसार 1908 शक संवत् के माघ माह के 5वें दिन दो मूल प्रतियों में, प्रत्येक स्पॅीनश, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे ।

पेरू गणराज्य की
सरकार की ओर से

॥ अलान वाग्नेर टिसोन ॥
विदेशा मंत्री

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

॥ नारायण दत्त तिवारी ॥
विदेशा मंत्री

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DEL PERU Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA INDIA

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de la India, inspirados en el deseo común de establecer y desarrollar relaciones culturales más estrechas y con el deseo de promover y desarrollar en todas las formas posibles las relaciones y el conocimiento mutuo entre la India y el Perú en los aspectos del arte, la cultura, la educación, incluyendo la actividad académica en el campo de los deportes, la salud pública y los medios masivos de información y de educación, han acordado suscribir el siguiente convenio:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes promoverán y facilitarán la cooperación en los campos del arte; la cultura, la educación, incluyendo la actividad académica en el área de la salud pública, los medios masivos de información y de educación; el deporte y competencias y el periodismo, para contribuir a un mejor conocimiento de sus respectivas culturas y actividades en estos campos.

ARTICULO 2

Las Partes Contratantes alentarán y facilitarán:

- 1) El intercambio cultural recíproco (expertos y escritores) para realizar visitas y estudiar proyectos;
- 2) El intercambio cultural de grupos artísticos;
- 3) El intercambio de exposiciones culturales y artísticas;
- 4) El intercambio recíproco de profesores, intelectuales y especialistas para realizar proyectos de investigación y para dictar cátedras en los diferentes niveles educativos;
- 5) El otorgamiento recíproco de becas y el aliento del intercambio de estudiantes, graduados y post-graduados, no becados, de acuerdo a las necesidades y posibilidades, que se acordarán mutuamente;
- 6) La promoción y la facilitación del establecimiento de contactos y la colaboración entre los Ministerios u organismos representativos de la Educación Superior en ambos países;
- 7) El estímulo del intercambio de manuales, libros y otros materiales entre las instituciones educativas de ambos países;
- 8) Las invitaciones a conferencias académicas internacionales organizadas por cada país a intelectuales y especialistas del otro país contratante y el otorgamiento de todas las facilidades necesarias;

9) El reconocimiento recíproco de grados, certificados y/o diplomas, otorgados por centros educativos superiores, así como de diplomas otorgados por instituciones educativas de los dos países de acuerdo con las normas legales de cada Parte Contratante.

ARTICULO 3

Las Partes Contratantes garantizarán, dentro de lo posible, que los libros de texto prescritos para sus instituciones educativas, particularmente aquellos relacionados con Historia y Geografía, no contengan ningún error ni malas interpretaciones sobre la realidad del otro país.

ARTICULO 4

Las Partes Contratantes estimularán la traducción recíproca y la publicación de obras literarias, artísticas, científicas y tecnológicas del otro país, a través de las instituciones respectivas y el intercambio de libros, revistas, periódicos, partituras musicales, reproducciones de arte, discos, cintas magnetofónicas, películas y demás material de contenido cultural, artístico, educacional, científico y tecnológico.

ARTICULO 5

Las Partes Contratantes se comprometen a estrechar los vínculos y la colaboración entre sus instituciones deportivas, según las diferentes necesidades y posibilidades, a través del intercambio de deportistas y entrenadores, y de la organización de competencias amistosas para desarrollar los contactos deportivos.

ARTICULO 6

Previo acuerdo de ambos Gobiernos, las Partes Contratantes realizarán el intercambio y la colaboración en el campo de la prensa, la radiodifusión, la televisión y la cinematografía; y estimularán asimismo el intercambio de carácter artístico y comercial entre las empresas cinematográficas de ambos países.

ARTICULO 7

Previo acuerdo de ambos gobiernos, las Partes Contratantes, convienen en intercambiar delegaciones y especialistas en el campo de las ciencias sociales para realizar visitas, asistir a conferencias e intercambiar material sobre asuntos de interés.

ARTICULO 8

Las Partes Contratantes proporcionarán las facilidades necesarias para el intercambio de réplicas, fotografías y material escrito sobre el patrimonio-cultural, la historia y el arte, perteneciente a museos, bibliotecas y otras instituciones culturales de ambos - países.

ARTICULO 9

Las Partes Contratantes, de acuerdo a sus leyes y reglamentos, facilitarán el ingreso y salida temporal de bienes culturales y artísticos destinados a exposiciones culturales y artísticas de la otra Parte - Contratante.

Cada Parte Contratante garantizará la protección de estos bienes durante su permanencia en su territorio, así como su devolución a la otra Parte Contratante, de acuerdo a disposiciones específicas a ser convenidas mutuamente en cada caso.

ARTICULO 10

Cada Parte Contratante se compromete a cooperar en la devolución de los bienes culturales de la otra Parte, cuando éstos hayan sido sacados ilegalmente- del país de origen e internados en su territorio.

ARTICULO 11

Cada una de las Partes Contratantes podrá proponer a la otra, por vía diplomática, cuando lo considere necesario, enviar o recibir uno o varios representantes o una delegación para discutir los Programas de Intercambio en uno o varios de los campos cubiertos por este Convenio y para firmar el Programa de Intercambio Cultural. Las Partes Contratantes convienen en que el Plan Ejecutivo así como los gastos del intercambio cultural y educativo, serán determinados en cada caso, por la vía diplomática.

ARTICULO 12

Este Convenio entrará en vigencia en la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación. Continuará en vigencia por un período de cinco años y se renovará automáticamente por períodos adicionales de cinco años, hasta que cualesquiera de las Partes Contratantes notifique con una antelación de seis meses a la otra Parte su intención de dar por terminado el presente Convenio. Este Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo.

En fé de lo cual los suscritos, repre

sentantes debidamente autorizados de las Partes Contratantes han colocado sus sellos.


Firmado en Nueva Delhi, el día 25 de enero de 1987 correspondiente al día 5 de Magha de 1908 (era de Saka) en dos originales, cada uno en los idiomas Indú, Español e - Inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DEL PERU



ALLAN WAGNER TIZON
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE LA INDIA



NARAYAN DATT TIWARI
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE

Le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de la République de l'Inde, inspirés par un désir commun d'établir et de nouer des relations culturelles plus étroites, désireux de promouvoir et de renforcer de toutes les manières possibles les relations et la compréhension entre le Pérou et l'Inde dans les domaines de l'art, de la culture, de l'éducation, notamment les activités universitaires en matière de sports, de la santé publique et des médias d'information et d'éducation de masse, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Les Parties contractantes favorisent et encouragent la coopération dans les domaines de l'art, de la culture et de l'éducation, notamment les activités universitaires en matière de santé publique, des médias d'information et d'éducation de masse, du sport et des jeux, et du journalisme afin de contribuer à une meilleure connaissance de leurs cultures et activités respectives dans ces domaines.

ARTICLE 2

Les Parties contractantes encouragent et favorisent :

- 1) l'échange culturel (experts et rédacteurs) dans le cadre de visites et de projets d'étude ;
- 2) l'échange culturel de troupes d'artistes ;
- 3) l'échange d'expositions culturelles et artistiques ;
- 4) l'échange d'enseignants, d'intellectuels et de spécialistes pour entreprendre des projets de recherche et donner des conférences à différents niveaux d'enseignement ;
- 5) l'octroi réciproque de bourses d'études, et l'échange d'étudiants de deuxième et troisième cycles ne bénéficiant pas de bourses, en fonction des différents besoins et des différentes possibilités à définir d'un commun accord ;
- 6) l'établissement de contacts et de la collaboration entre les ministères ou les institutions qui représentent l'enseignement supérieur dans les deux pays ;
- 7) l'échange de manuels, de livres et d'autres supports entre les établissements d'enseignement des deux pays ;
- 8) l'invitation d'intellectuels et de spécialistes d'une Partie contractante aux conférences universitaires internationales organisées par l'autre Partie contractante et la mise à disposition de toutes les installations nécessaires à cet effet ;
- 9) la reconnaissance réciproque des licences, certificats ou diplômes délivrés par les centres d'enseignement supérieur ainsi que des diplômes délivrés par les établissements éducatifs des deux pays, conformément aux normes juridiques des pays.

ARTICLE 3

Les Parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à faire en sorte que les manuels recommandés dans leurs établissements d'enseignement, en particulier ceux portant sur l'histoire et la géographie, soient exempts de toute erreur factuelle ou présentation erronée des faits concernant le pays de l'autre Partie.

ARTICLE 4

Les Parties contractantes encouragent la traduction et la publication réciproques des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques de l'autre pays par l'intermédiaire d'institutions appropriées, ainsi que l'échange de livres, de revues, de journaux, de partitions musicales, de reproductions d'œuvres d'art, de disques, de bandes magnétophoniques, de films et de tout autre matériel à caractère culturel, artistique, éducatif, scientifique et technologique.

ARTICLE 5

Les Parties contractantes s'efforcent de renforcer les liens et la collaboration entre leurs institutions sportives, en fonction des différents besoins et des différentes possibilités, par l'échange de sportifs et d'entraîneurs et par l'organisation de compétitions amicales afin de renforcer les contacts sportifs.

ARTICLE 6

Sous réserve d'un accord préalable, les Parties contractantes procéderont à des échanges et coopéreront dans les domaines de la presse, de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma ; elles encourageront également les échanges artistiques et commerciaux entre les sociétés cinématographiques des deux pays.

ARTICLE 7

Sous réserve d'un accord préalable, les Parties contractantes conviennent d'échanger des délégations et des spécialistes compétents dans le domaine des sciences sociales, afin qu'ils se rendent visite, qu'ils assistent à des conférences et qu'ils échangent du matériel sur des sujets pertinents.

ARTICLE 8

Les Parties contractantes fourniront les installations nécessaires à l'échange de répliques, de photographies et de matériel écrit sur le patrimoine culturel, l'histoire et l'art, conservés dans des musées, des bibliothèques et d'autres institutions culturelles des deux pays.

ARTICLE 9

Les Parties contractantes, conformément à leurs lois et règlements, faciliteront l'entrée et la sortie temporaires d'objets culturels et artistiques provenant d'expositions culturelles et artistiques de l'autre pays contractant.

Chaque Partie contractante garantira la protection de ces objets tant qu'ils se trouvent sur son territoire, ainsi que le renvoi de ces objets à l'autre Partie contractante selon des modalités spécifiques convenues d'un commun accord dans chaque cas.

ARTICLE 10

Chaque Partie contractante s'engage à coopérer à la restitution des objets culturels appartenant à l'autre Partie qui ont été sortis illégalement du pays d'origine et qui se trouvent sur son territoire.

ARTICLE 11

Chaque fois que jugé nécessaire, une Partie contractante peut proposer à l'autre, par la voie diplomatique, de lui envoyer ou d'accueillir un ou plusieurs représentants ou une délégation pour discuter des programmes d'échanges concernant un ou plusieurs des domaines couverts par le présent Accord et pour signer le programme d'échanges culturels. Les Parties contractantes conviennent que le plan d'exécution et les dépenses liées aux échanges culturels et éducatifs seront déterminés séparément par la voie diplomatique.

ARTICLE 12

Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Il reste en vigueur pendant une période de cinq ans et est renouvelé tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans chacune, jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie à l'autre au moins six mois à l'avance son intention de dénoncer le présent Accord. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, en tant que représentants dûment autorisés des Parties contractantes, y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à New Delhi le 25 janvier 1987, correspondant au 5 Magha 1908 (calendrier indien), en deux exemplaires originaux, chacun en langues hindi, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :

WAGNER TIZON

Ministre des relations extérieures

Pour le Gouvernement de la République de l'Inde :

NARAYAN DATT TIWARI

Ministre des relations extérieures